



# **Billwin Industries Limited**

79, Vishal Industrial Estate, Village Road, Nahur (W), Mumbai - 400078. • Tel : 022 -25668112

> Email- info@billwinindustries.com Web- www.billwinindustries.com CIN-L18104MH2014PLC252842 Phone No. 9987758506

Date: May 14, 2024

To, Sr. General Manager Listing Operation, BSE Limited, P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai- 400 001

Dear Sir/Madam,


Sub: Intimation under Regulation 84 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("SEBI ICDR Regulations") and Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 Scrip Code: 543209

Further to our earlier intimations in relation to the Extension of the issue closer of the proposed Right Issue of the Company, the date of the Rights Issue, which opened on Monday, May 13, 2024 and scheduled to be closed on Monday, May 20, 2024 which was extended by our Company by One (1) days i.e. till Tuesday May 21, 2024. The last date of submission of the duly filled in Application Form (along with amount payable on application) is Tuesday, May 21, 2024, in accordance with the SEBI ICDR Regulations and other applicable laws including the circulars issued by SEBI from time to time, we enclose copies of newspaper advertisements issued by the Company and published on May 14, 2024 in all editions of English national daily newspaper, "Business Standard", all editions of Hindi national daily newspaper, "Business Standard", and Mumbai Lakshadweep" (where the Company's registered office is located)..

We hereby submit the Advertisement in pdf format for dissemination on your website.

Thanking you,

Yours faithfully For Billwin Industries Limited MUMBA Subrata I Managing Div ector DIN: 06747042





At the larve of Ting the Latter of Offer, the Tessa Clusing Date was decided to be Monthly, May 20, 2024. However, so per the powers stated in the Latter of Offer to the Board of directory to estend the sold date of closing of rights leave offer period as may be determined by them from time to three, in their meeting held on Thursday, May 30, 2024 have decided to estend the tesse period by one (1) day for the bornell of investors and hence, the tesse closing date shall be need as an end of the sold. May 21 2004

The Latter of Office and the Rokinged Latter of Office including Application Form and FigWa Entitlement Latter to be modified in terms of Jeaus Closely Date and the same is resulted to be read as "Tuesday, May 21, 2020". For Bilbuis Industries Limited

brata Day Soundary (DIN: BETHTHEZ)

(MAHENDRA C. JAIN) Advocate & Solicitor

THE SCHEDULE ABOVE REFERRED TO:-

Five (05) May paid-up shares of Rs. 50- each bearing Dist. Nos. from 181 to 185 (both inclusive) under Share Certificate No. 031 dated 23-07-1905, allotted by the Seclety called ANTARKSHA CO-OP. HOUSING SOCIETY LTD. having Registration No.

BOM/G-5, WHSO/TC/9654/92-03 DATEO 15-04-1993, together with all this right, title and interval in a residential Flat No. 202 admension addout 1071 to the equivalent to 95-50 a), miss, carpet area on the 21st Floor along with two (32) Car Parking Bpaces (one covered Car Parking Space bioaring No. 18 in the Basement and one open Car

Parking Epace bearing No. 11 on the Podium Lavel in the Building known as ANTARIKERA of the said society situate lying and being at 95/96. Kakasaheb Gadgli

Marg. Prabhadevi, Mumbai - 400025, on the piece & parcel of land bearing C.S. No.

Mahim in the Registration District & Dated, this 14" day of May, 2024.

Place : Humbal

Date: 14.05.2924

A1152 and 1-5/1162 of Lower Panil Division and Final Plot No. 995 and 998 of TP/S. IV Mahim in the Regulation District & Bub-district of Mambai City

DHANI AXMI COTEX LIMITED

same known in writing together will supporting documents to the undersign ethin 7 days from the date of publication ereof otherwise claims, if any, shall be considered as waived and my clients will apply for the transfer of the said flat and the

considered as waived and no claims shall be

SCHEDULE OF THE PROPERTY

stivided share in land bearing GBP Shop

No.20 and land in front of GBP Shop No.20,

totally admeasuring 286 square leef,

alongwith undivided share in the building of

ground plus three upper foors constructed

on the said Land, being lying and situated at

Anii Shamdaeani

Advocate

केनरा बैंक Canara Bank 🗛

Place: Than

Village Kopri, Takika and District Thate.

risined thereaffer

Date: 14-05-2024

and shares to the concerned authority in ishor/heirnames. Adv. Mukesh Thakkar, Office: B/1, Gr. Floor, Shiv Kripa Bidg. Opp. Laxminarayan Temple, Laaminarayan Lane, Off. Mathuradas Road Kandivali West, Mumbai-400067 Mobile: 9019018282 Email: advmml@gmail.com

### PUBLIC NOTICE alle notice that SMT.

Date: 10-05-2634 Piece: Manihal

PATHAK was the member of Rajends Nagar Kuldeep Sahakari Gruhnirma Sanstha Maryodit situate at Rajendra Naga Opp. Rationing Office, Borivali East Mumbei-400056 hokting share certificate No. 69 with distinctive Nos. from 336 to 340 (the said shares) with respect to Flat No. 27/192, Rajendra Nagar Kuldeep CHSL. CCI Colony, Dattapada Road, Opp. Rationing Office, Rajendra Nagar, Borlva East Mumbai-400065 (the said fat). lease take further notice that the said SMT VIMLA 5 PATHAK died intestate o 28.05.2020 al Mumbai leaving behind (1 ANJALI SANTRAM PATHAK and (2) ARCHANA SHIV TRIPATHI as her only heir and legal representatives entitled to the estate of the deceased. Any person having any claim in the said fait and/or the said Share whether by way of mortgage, charge, gift, trust, use possession, inheritance, maintenance ancy, lease, lien, easement or otherwit escever is hereby required to make the sporting documents to the undersigne aidered as waived and my clients will

> Office: B/1, Gr. Floor, Shiv Kripe Bidg. Lane, Of, Methuradas Road, Kandival West, Mumbai-400067 Mobile: 9619618082

estigating the title in respect of the perty more particularly described in the schedule written hereinbelow. Mr Dillo mumal Chandnani has represented to ne that the said Property was owned by Shri Hemumal (Hemandas) Rochaldas Chandhani who has expired on 26" June 1964 and he has acquired the sole enership of the said Property by virtue of the Release Deed executed by all the legal wits of Late Shri Hemumal (Hemandas Rochaldas Chandrani, Al personalentities wing any right, itle, claim, benefit emand or interest in respect of the under entioned property are hereby required to ubmit their claim, alongwith documentary idence within 14 days from the date of this ofice at A-70, Sri Gurunanak C.H.S Ltd. Kopri Colony, Thane (East) 400603 marwise such claim will be considered as valved and no claims shall be entertained have after

# Opinion, Insight Out

BSE Cade: 512485	t March, 2	(94.	In Lakhs ea	
Particulars		Mar to date ended 31st Meth 2024		year ended or
	(Autiliat)	(Audited)	(Auditor)	(Audited)
Total income from operations & other sevenue Net Profit / (Loss)	381.84	2871.82	905.05	2534.26
(before tax and/or extraordinary lierrs) Net Profit / (Liess) for the period before tax	(40.11)	34424	(43.72)	25.60
(after Extraordinary items) Net PtoH/ (Loss) after tax	(42.11)	34424	(43.72)	35.00
(after extraordinary items) Total Comprehensive income for the period (comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income	(40.16)	288.54	(45.78)	21.69
(after tax) ]	(112.95)	1524.80	(304.70)	175.83
Equity Store Capital Reserves. (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous	457.14	457.14	457.14	407.14
year) Earnings Per Share (of 10/- each) (tor continuing and discontinued operations)	100	6677.94	0	460.51
Basic :	(0.62)	5.92	(0.94)	0.49
Distant	(0.82)	5.92	(0.94)	0.49

one (www.accuer.etr	For Dhanlazmi Collex Lin Sd/-
	Habech S. Jhawar
	(Whele Time Director DIN: 00002908

fiffbitz Byndicate aler (West) Brunch : Mondesire Bitg., Renate Cadel Fixed, Arctive String Part Past, Dader (West), Murchal - 400 028, Bmall : cb0107@canantiank.com OSSESSION NOTICE DECIDE TAKE For Interventile property reas: The undersigned being the Authorised Officer of the Cenera Bank, Dater sch, appointed under Socuritisation And Reconstruction of Financial Assets and roement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) (hereinafter referred to an Act") and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 arity interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated 02.2024 & published in 2 newspapers on 18.02.2024 calling upon the Borrower, Valancevi Vijay Karguthar & Guaranter Mr. Sushil Kamar Rajbahadur to sy the amount mentioned in the notice, being Rs. 26,64,0267 (Rupses Twenty Lakhs Ninety Four Thousand Twenty Six only) as on 31.01.2024 plus intensit and other cost within 60 days from the date of receipt of the said notice. Burrower/Guarantor having failed to repay the amount, notice is hereity given to borrower and the public in general, that the undersigned has taken Possessien shells of the property described herein below in exercise of powers conferred on the section of the property described herein below in exercise of powers conferred on the section of the property described herein below in exercise of powers conferred on the section of the property described herein below in exercise of powers conferred on the section of the property described herein below in exercise of powers conferred on the section of the property described herein below in exercise of powers conferred on the section of the property described herein below in exercise of powers conferred on the section of the property described herein below in the section of the power section of the se 13 (4) of the sold Act, read with Fluie 8 & 9 of the sold Fluie s 10th day of May 2024. rower in particular and the public in general are hereby cautioned not to dea I the property and any dealings with the property will be subject to the charge of name bank, Dadar Branch for an amount of Rs. 26,84,026i- (Rupees Twenty Six the Ninety Four Thousand Twenty Six only) The borrower's attention is invited to provisions of Section 13 (R) of the Act, in respect of time available, to redeem the Description of the Immovable Property roll of Property Bearing Details - Residential Flat Be hat Part And Pan Admeasuring 025 Sq. P1. (built Up) Area, On Ground Floor, in The A Wing, of ling Known As "Sai-Tep" of Bosledy Known as "Sai Tep Co-operative Housing Booledy" g Constructed On All Thet Pleos and Parcel of Land Bearing Survey No / Gut No. 65. No. 1/1 K, Plot No 4 At Vilage Valval, TALUKA - AMBERNATH, Datrict Thane nded As Folkees: North - By Property of S. No. 70, South - By Property of Plot No. ant - By Road & Property of Plot No. 3, West - By Property of S. No. 70. 54 Authorized Officer Centers Bank

### PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that we are investigating the title of Charlop Laxmi Co-Operative Housing Society Ltd., a society registered under Bombay Co-operative registered under the pr Co-operative Societies Act. 1980, bearing registration no BOAWRHSG/TC/5648 having its registered office at Plot no 284, R.D.P.4, Sector-V, Charkop, Kandivali (W), Mumbal 400 067. ("Society"), as the Owner of the Property more particularly described in the Schedule hereunder written.

same known in writing together with within 7 days from the date of publication tereof otherwise claims, if any, shall b apply for the transfer of the said flat and the said shares to the concerned authority in entheir names, Adv. Mukesh Thakka

Opp. Laxminarayan Temple, Laxminaraya Email: advmmi@gmail.com

PUBLIC NOTICE NOTICE is hereby given that I

INVENT ASSETS SECURITISATION & Regd. Office : Beinterver, Balls W., Ground Floor, Backbay Reclamation Rohertse Block B, 22 Nationan Politi, Munchai-400 021. Tel. No. (022) 2260 1518, Website : www.inventers.com SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY UBLIC NOTICE - AUCTION CUM SALE OF IMMOVABLE PROPERTY ("SECURED ASSETS") OF M/S. ANANO HOSPITALITY SERVICES PRIVATE LIMITED, M/S KARINUEE LIMITED. Mr. Vinod Gopinarain Anand (Since Deceased) ("BORROWER") FER THEIR DUES UNDER RULE & R/W RULE & OF THE SECURITY INTEREST ENFORCEMENT RULES, 2002 EREAS under section 13(2) of the 'SecurtIsation and Reconstruction of Feancial Assets an intercoment of Security Interest Act, 2002 (SAVEAESI Act), the Authorized Officer of Inventional Securities and Automatical Pet. Ltd. Inc. Automatics Acts and 10.16.2022 calling upon the borrower M/s. Assant Houghtality Services Private Limited, M/s. Karingie Limited, Mr. Viewd Gopinarain Assant (Since Decessed) along with its mortgagors & guarantors jaintly and severally to repay the annual interfamed in the cald notice being 7 38.52,78.967.82 (Rs. Thirty-Eight Green Rity-Neo Lakk Severaly-Eight Theosand Baty-Seven and Eighty-Neo Palse Only) payable to invest Assets Securitization & Reconstruction Pvt. Ltd. respectively as in 30° September, 2522 along with further interest and incidential expenses and costs his SH days from the date of the said notice.

Further, in continuance and in exercise of powers contained in SANVAESI Act, the Authorized Officer of Invent Accels Societization & Reconstruction Pet. Ltd. had taken the Physical an of the under mentioned secured assets on DSP February, 2024.

out Assets Securitization & Reconstruction Private Limited (INVENT) is an Accer n Company duly registered with Reserve Bank of India under section 3 of the rovisions of Securification and Reconstruction of Reancial Assets and Entomement of Security net Act 2002 (SARIAESI Act), has acquired financial assets / debts of the Borrowe M/s. Anand Houghailty Services Private Lindled, M/s. Karterjoe Lindled, Mr. Viewd Gapharsin Anand (Since Decease); from Abhyedays Co-operative Bank LM, slong with all the underlying securities, rights, the and internets vectod themin under the provisions of the SAVVAED Act wide registered Assignment Agreement dated 18th June, 2018 duly registered with the But Registrar Mumbal

Offers are now invited by undersigned from intensing purchasers/bidders in sealed envelo covers for purchase of the secured assets described tweels below as 'as is where is basis' "as in what is basis" and "no measure basis" under the provisions of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and Security must (Enforcement) Rules 2002. The General Public is invited to bid either personally or through their duty sufficient agent.

Rome of the Second Condition	Invent Assets Securitization & Reconstruction Private Lambed (INVENT)
Name of the Bernever	N/s. Anand Hospitality Services Pvt. Ltd., N/s. Karimjee Limited, Nr. Vised Gepinarain Anand (Since Decessor)
Name of the Mortgager, Daner of the property	Mr. Viend Supinaruin Anand (Since Decement legal heir Amit Wheel Anand and Ana Jain)
	T 38,52,78,807.42 (Re. Thirty-Eight Grove Fifty-Teo Lakh Eventy-Eight Thoseand Shity-Even & Eighty-Teo Palan Gety) as or 38,86,2022 with laters internet at contractual ands fill be date of recovery / maination & other expenses / south thorean.
Last Date & Time for salesisten of bid	June 18, 2024 at 11.00 a.m.
Address at which the lander	Behtawar, Sele W, Ground Roor, Becibey Reclamation Scheme Block II, 229, National Paint, Mantael-400 021.
Date & Time of Bid Opening	June 18, 2004 at 12,00 p. m.
Filiace of Austion	Buildtawa, Bata W, Ground Feor, Bacibay Reclamation Scheme Buck II, 225, Nariman Point, Munital-400 021.
	Ref / Office No. 1 admessaring 1050 Sq. Pt. (carpet area) Smoral Film, "Marry Seet" of Sabhara CHS. Ltd., sharbed on Pict No. 258, C. S. No.1043 of Fert Division, Opp. Cricker Cub of India, Divisione Vachcha Read, Churchgale, Mambal 800 020.
IC Reserve Price	# 5,78,00,000/- (Rs. Five Done and Seventy Eight Lakha Driv)
Tarnest Morey Deposit	10% of the Reserve price - ₹ 57.80,000- Rs. Fifty Seven Lakh and Ephty Thousand Only)
12 Known ensambranses	Nat Known
13 Known Liabilities	Ret Known

and Reconstruction Company Ltd. at above merilioned address. Phase Re: 9320587826. Email M : arkit.shety@inventarc.com

For detailed terms and conditions of the sale, pisame refer to the link provided on minvestarc.com Secund Creditor's (RWENT) website.

Date : 13º May 2024 Place: Munitol	Authorized Officer,
Place: Manthai	invent Avanto Securitization & Reconstruction Private Limited
	(Arting in suparity as Inutiae of WHURL/17M/EIN Trust)

All and any person/s/entity, including any bank/financial institution, having any sham, right, Me, benefit, interest, claim, objection or demand in respect of the Property or any part thereof by way of sale, exchange, assignment, mortgage, charge, gift, trust, inheritance, occupation, possession, tenancy, sub-tenancy, leave and license, caretaker basis, lease, sub-lease, ken, maintenance, easement, other rights through any agreement, conveyance deed, writing, devise, bequest, succession, family amangement settlement, litigation, decree or court order of any court of law, contract, development rights, FSI or TDR or encumbrance or otherwise howsoever are hereby requested to make the same known in writing along with documentary proof to the undersigned at within law@solicislex.com within 14 days from the date of publication hereof with documentary proof invidence thereof failing which, the claim of such person's shall be deemed to have been waived and/or abandoned.

### SCHEDULE OF THE PROPERTY

All that pieces and parcels of land bearing CTS. No 1C/1/447 of Kandival (W) Vilage, Plot No.254, RDP-4, admeasuring . 900.00 square meters or thereabouts situated at Charkop Kandivali, Munthal- 400 067 within the Registration Sub-District of Bandra Bombay Suburban District together with a building standing thereon known as Charlop Laumi Co-operative Housing Society Limited' having G+7 foors consisting of 14 flats lying and situated within the Registration District Mumbai Suburban of Bombay and Sub-District of Bandra lying being and situate at Piet no. 284, R.D.P.-4, Sector-V, Charkop, Kandivali, Munitel 400.067

For SolicisLasAdvisory Dated this 14th day of May 2024 6th Floor, "A" Wing, Knox Plaza, Next to Lemon Tree Hotel, Mindspace, Behind Inorbit Mall, Off. Link Road, Malad (West), Mumbai - 400 064. Email kt. law@solicisles.com Office No: +91 22 6118 7200



Whereas: The undersigned being the Authoritand Officer of the Canata Bank, Low Panel Branch, appointed under Securitization And Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Becarity Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) (hereinafter referred to an 'The Act') and in exercise of prevers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 on The Act ) and it analysis of powers contained on the Section 12 (12) has well as of the Security Intervent (Enforcement) Rules 2002, Insued a Common Netice dated 62,02,2024 & published in 2 newspapers on 18,02,2024 calling open the Borrower, Mr. Yegesh Katyannee Thains and Mrs. Suman Katyannee Thains to repay the smooth mentioned in the rotice, being Ra. 8,80,518,50 (Rupees Eight Lakhe Eight) Thousand Five Handland Eighteen and Palsa Fifty only) as on 01,82,2024 plus internet due and other cost within 50 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower/Guarantice having failed to repay the amount, notice is terretry given the borrower/Guarantice having failed to repay the amount, notice is terretry given the borrower/Guarantice having failed to repay the amount, notice is terretry given the borrower/Guarantice having failed to repay the amount, notice is terretry given the borrower/Guarantice having failed to repay the amount, notice is terretry given the borrower/Guarantice having failed to repay the amount, notice is terretry given the borrower/Guarantice having failed to repay the amount, notice is terretry given the borrower/Guarantice having failed to repay the amount, notice is terretry given the borrower/Guarantice having failed to repay the amount, notice is terretry given the borrower/Guarantice having failed to repay the amount, notice is terretry given the borrower/Guarantice having failed to repay the amount, notice is terretry given the borrower/Guarantice having failed to repay the amount and the terretry given the failed of the statement of the failed to terretry given the failed to the failed to terretry given the faile

to the borrower and the public in general, that the undersigned has taken By Possession of the property described herein below in exercise of confirmed on him / her under section 13 (4) of the said Act, read with Rule B 6, 9 of the said Rule on this 97th day of May 2024.

The Barrower is particular and the public is general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Canara Bank Lower Paral Branch for an amount of Re. 8,80,518.50 (Rupees Eight Lakhs Eighty Thousand Five Hundred Eighteen and Palas Fifty only). The borrower's attention is instead to the provisions of Section 13 (II) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of the Immovable Property All That Part And Parcel of Property Bearing Details:- Residential Flat No. 1805, Admessuring 320 Eq. Ft on The 18th Floor, A Wing, Building No. 2 Meridian Built Pro Pvt. Ltd. On The Final Plot No. 304/A & 304/C. Admeasuring 2505.20 Sq. Mm Shualed At Panchpakhadi, Taluka Thane With In The Area of Mire Bhayander Municipal Corporation Bounded as Follows - North - Final Plot No. 394A/1 & 394B Bouth - Final Plot No. 394A/3 & 394C/1, East - Final Plot No. 394C/1 & 392, West - F

ac (	A SALAR BALL SHALL HAVE	54			
ad .	Date : 67.05.2024	Authorised Officer			
101	Date : 67.05.2024 Place : Mumbel	Canars Bank			
	Contract of the local data and the				

8 - 8 8

**SCHEDULE OF THE PROPERTY** ndivided share in land bearing GBP Shop No.19, admeasuring 198 square lieet, regwith undivided share in the building of ound plus three upper floors constructs in the said Land, being lying and situaled a Allage Kopri, Taluka and Diebrict Thane.

Anil Shamdas Advoca Data: 14-05-2024 Place: Than

### NOTICE

TAKE PUBLIC NOTICE Under instruction of my client Pritan Minneth Sereng, Pretim Minneth Sereng and Yedule Minneth Sarang intend to purchased Flat No 5, Ground Floor, Building No 1, Swarajya Co-operative Housing Society Limited, Senapati Bapa Marg, Elphinstone, Mumbal-400013, Property more particularly described in the Scheduli hereunder written ("the said Property") from Smt. Rakhamabal Dhondu Dhanavade she is the owner of said flat. Originally said flat was in the name of Late Dhondu Bapu Dhanavade he expired on 29.06.2011 thereafter said flat transferred in the name of Smt. Rakhamabal Dhondu Dhaneve

Therefore I hereby invites claim or objections from the heir or heirs or other claimant or claimants the transfer of the said shares of said flat by way of agreement for sale and interest in my client name, in the capital/property of the society mention in sche or otherwise howsoever, I hereby requested to make the sam known in writing along with supporting documents to the supporting documents to the undenligned at office no 205, Sai Shraddha Building, Senapati Bapat Marg Eiphinstone Road Mumbai- 400013 within a period of 7 days from the public this notice, with copies of such documents and other proofs in support of his/ her/ their claims objections for transfer of shares and interest of the deceased member in the capital /property of the society. Failing which it shall be constructed and accepted that there does not exist any such claim and/or the same shall be constructed as having been non-existent/ waived/ abandoned. SCHEDULE OF THE PROPERTY Flat No. 5, Ground Floor, Buildin No.1, Swarajya Co-operative Housing Society Limited, Senapet Bapet Marg, Elphinatone, Mumbel-400013 Data: 14.05.2024 Place: Mumbal (Sagar Marsthe Advocate

# Opinion, Monday to Saturday

To book your copy, sms reachbs to 57575 or email order@bsmail.in

















# संक्षेप में

# एनसीएलटी में गो फर्स्ट की सुनवाई टली

नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ( एनसीएलटी ) ने गो फस्ट की दिवालिया याचिका पर सुनवाई 11 जुलाई के लिए टाल दी है। सोमबार को एनसीएलटी ने संकेत दिया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अध्ययन के लिए उसे और वक्त चाहिए, जिसने डीजीसीए को 3 मई, 2024 तक उसके सभी 54 बीएस विमानों को अपंजीकृत करने को कहा था।

# आईसीआईसीआई सिक्यो. ने किया उल्लंघन

अल्पांश शेयरधारकों ने एनसीएलटी से कहा कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने शेयरधारकों की विस्तृत जानकारी आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझा कर शेयरधारकों की निजता व प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि आईमीआईमीआई बैंक के कमंधारियों ने शेवरधारकों को फोन कर जागरूकता फैलाने के नाम पर खास तरीके से मतदान करने की सलाह देकर गुमराह किया।

# एयरटेल ने किया गूगल क्लाउड के साथ करार

भारती एवरटेल ने अपने ब्राहकों को क्लाउड समाधान प्रदान करने के लिए गुगल क्लाउड के साथ साझेदारी की है। सोमचार को संयुक्त बयान में यह जानकारी दी गई। बयान में कहा गया, दीर्घकालिक साझेदारी के तहत 'फास्ट-ट्रैक क्लाठड' अपनाने के लिए गुगल क्लाउड से क्लाउड समाधान की पेशकश करेगा। दोनों कंपनियां उद्योग-अग्रणी एआई/एमएल समाधान विकसित करने के लिए संपर्क तथा एआई प्रौद्योगिकी की अनुठी ताकत को एक साथ लाएंगी, जिसे एयरटेल अपने बड़े डेटा सेट पर प्रशिक्षित करेगा। NTW.

# टेलीपरफॉरमेंस करेगी १५,००० नियुक्तियां

फ्रांस की विजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट (बीपीएम) दिग्गज टेलीपरफॉरमेंस भारत में विस्तार की बोजना चना रही है। कंपनी ने वर्ष के अंत तक अपने कमिंगों की संख्या 15,000 तक बढाकर 100,000 के पार पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

टेलीपरफॉरमेंस मौजूदा समय में 15 शहरों में परिचालन करती है और उसने इस साल के अंत तक वह संख्या बढ़ाकर 20 करने की योजना बनाई है।

# बीएस संवाददाता मुंबई, 13 मई

पूर ड डिलिवरी एग्रीगेटर जोमैटो का लाभ मार्च 2024 में समाप्त तिमाही में 175 जाने रहा। यह लगातार चौथी तिमाही है जब कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है। वित्त वर्ष 2023 की चौधी तिमाही में कंपनी ने 188 करोड रुपये का मुकसान दर्ज किया था।

क्रमिक आधार पर कंपनी का शुद्ध लाभ तीसरी तिमात्री के 138 करोड़ रुपये के मुकाबले 26.8 फीसदी बंदा। तिमाही में कंपनी के राजस्व को क्विक कॉमर्स बिजनेस ब्लिकिट, रेस्टोरेंट बिजनेस और बी2बी पेशकश से मजबूती मिली। इस अवधि में कंपनी का राजस्व सालाना आधार पर 73 फीसदी की बढोतरी के साथ 3,562 करोड़ रुपये रहा। क्रमिक आधार पर राजस्व 8.3 फीसदी बढा।

वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का राजस्व 12.114 करोड रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 2023 में 71.1 करोड़ रुपये रहा था। पूरे साल का लाभ 351 करोड़ रुपये रहा, जबकि इससे पिछले साल कंपनी ने 971 करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज कियां था।

जोमैटो की शुद्ध आय हालांकि ब्लूमबर्ग के अनुमान से कम रही, लेकिन राजस्व के मोर्चे पर उसका प्रदर्शन एजेंसी के अनुमान से बेहतर रहा। चनुमबर्ग ने 3,485 करोड रुपये के राजस्व और 187 करोड़ रुपये को शुद्ध आय का अनुमान जताया था।

पिछली कुछ तिमाहियों की तरह कंपनी के क्यिक कॉमर्स का जीओवी (सकल ऑर्डर मूल्य) चौथी तिमाही में अच्छा रहा। ब्लिकिट का जीओबी सालाना आचार पर 97 फोसदी बढ़कर 4,027 करोड रुपये रहा जबकि तिमाही आधार पर यह 14 फीसदी बढ़ा। फुड डिलिवरी बिजनेस का जीओची सालाना आधार पर 28 फीसदी बढकर 8,439 करोड़ रुपये रहा, लेकिन क्रमिक आधार पर वह 0.6 फीसदी घट गया। क्विक कॉमर्स बिजनेस ब्लिकिट भी मार्च 2024 में एबिटा के स्तर पर सकारात्मक हो गया। हालांकि तिमाही में समाबोजित एबिटा 0.9 फीसदी कम रहा, पिछली तिमाहियों में 2.5 फीसदी ऋणात्मक था। 18.26 करोड़ शोयरों का नया पेपिको की सबसे बड़ी बॉटलिंग पार्टनर 7.2 फीसदी की वृद्धि हुई जबकि प्रति



# डीएलएफ का लाभ 62 फीसदी उछला

देश की आग्रणी रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ लिमिटेड का मार्च में समाप्त बीते वित्त वर्ष को चौथी तिमाप्ती में एकीकृत शुद्ध लाभ 62 फीसदी बहकर 920.71 करोड रुपये पर पहुंच गया। घरों की बिक्री बढने से कंपनी का मनाफा बढा है। कंपनी ने कहा कि एक साल पहले की समान अवधि में शद्ध लाभ 570.01 करोड रुपये रहा था। आलोच्य तिमाही में डीएलएफ की कुल आय बढ़कर 2316.70 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 1,575.70 करोड़ रुपये रही थी। समुचे वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी का शुद्ध लाभ बढ़कर 2,727.09 करोड़ रुपये हो गया जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह 2,035.83 करोड़ रुपये था। पिछले वित्त वर्ष में कंपनी की कुल आय बदकर 6,958.34 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले 6,012.14 करोड़ थी। पूंजीकरण के लिहाज से डीएलएफ देश की सबसे बडी रियल एस्टेट कंपनी है। इसने 158 से अधिक रियल एस्टेट परियोजनाएं विकसित की हैं। डीएलएफ समृह मुख्य रूप से आवासीय संपत्तियों के विकास और बिक्री के अलावा वाणिज्यिक और खुदरा संपत्तियों के विकास और पड़े के कारोबार में लगा हुआ है। 100

ईसॉफा पुल । जोमैटो 18.26 करोड शेवरों (3,500 करोड़ रुपये) का नया एम्पलॉबी स्टॉक ऑप्शन प्लान (ईसॉप) स्यापित करने को योजना बना रही है। कंपनी ने कहा, नया ईसॉप पुल अगले पांच साल की जरूरतें पूरी करेगा। यह उसकी शेवर पूंजी का 2 फीसदी होगा। कंपनी ने नियामकीय सूचना में कहा है

कि ईसॉप 2024 के तहत वह अपने कर्मचारियों को 18.26 करोड़ शेयर देगी। जोमैटो का शेवर सोमवार को 193.7 रुपये पर बंद हुआ।

## वरुण बेवरिजेज का शृद्ध लाभ 25.2 फीसदी बढा

केस शद्ध वसुली में 3.5 फीसदी की वृद्धि हुई। कंपनी का एबिटा एक साल पहले की समान अवधि के मकाबले 23.5 फीसदी की बढोतरी के साथ 997 करोड़ रुपये रहा। चरुण बेवरिजेज के चेयरमैन रवि जयपुरिया ने कहा, होली के त्योहार में 17 दिन की देरी के कारण सीजन का चक्र देर से शुरू हुआ, इसके बावजुद हम परिचालन व वित्तीय मोर्चे पर मजबूत प्रदर्शन की खबर देते हुए खुशी महस्स कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, हिंक में चीनी की मात्रा घटाने, पैकेलिंग में कॉरुगेटेड पैंड हटाने और हल्के पैकेजिंग मैटीरियल के इस्तेमाल पर व्यान केंद्रित करने से इसके नतीजे आने लगे हैं और सकल मार्जिन में इजाफा हआ है। कंपनी ने कहा कि उसकी एकीकृत बिक्री बॉल्यूम का 46 फीसदी कम चीनी या बिना चीनी वाले उत्पादों से हासिल हुआ।

### आदित्य बिडला केपिटल का एकीकृत लाभ बढा

आदित्व बिहला कैपिटल का एकोकृत शुद्ध लाभ मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 33 फीसदी की बहोतरी के साथ 812 करोड रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 609 करोड़ रुपये रहा था। मार्च तिमाही के लाभ में एकमुश्त फायदा शामिल नहीं है। एकमुश्त लाभ को शामिल कर दें तो एकीकृत मुनाफा करीब 1,245 करोड़ रुपये बैठता है।

चौधौ तिमाही में आदित्य बिडला कैपिटल ने आदित्य बिहला सन लाइफ को 5 फोसदी हिस्सेदारी बेची है।

कंपनी का एकीकृत राजस्व सालाना बहोतरी के साथ 537.3 करोड़ रुपये पर आधार पर 32 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 12,079 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इस अवधि में शुद्ध व्याज आय पहले के 1,271 करोड़ रुपये के मकाबले बढकर 1.693 करोड रुपये पर पहुंच गई। शुद्ध ब्वाज मार्जिन 6.86 फोसदी रहा, जो पहले 6.88 फीसदी रहा था।

> आदित्य बिडला कैपिटल की एनबीएफसी इकई का उधारी पोर्टफोलियो सालाना आधार पर 31 फीसदी बढ़कर 1.24 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया।



नई दिल्ली, 13 मई

टाटा समूह की विमानन कंपनी एवर इंडिया के मुख्य कार्य अधिकारी कैंपबेल विल्सन ने सोमवार को बताया कि विस्तारा के करीब 7 हजार कर्मचारियों का एकीकरण अगले महीने से शुरू हो जाएगा और एयर इंडिया में इसके विलय को इस साल के अंत तक पुरा करने का भी लक्ष्य रखा गढा है।

इससे पता चलता है कि टाटा समूह ने अपनी दो पूर्ण सेवाओं वाली विमानन कंपनियों की विलय की प्रक्रिया तेज कर दी है और इससे पहले विस्तारा के मुख्य कार्य अधिकारी विनोद कन्नन ने भी इस साल जनवरी में कहा था कि उन्हें साल 2025 के मध्य तक एयर

इंडिया के साथ परिचालन विलय को उम्मीद है।

विल्सन और कल्तन ने सोमवार को दोनों विमानन कंपनियों के कर्मचारियों के लिए आयोजित एक टाउन हॉल को संबोधित किया। सूत्रों के मुताबिक, विल्सन ने कहा कि दोनों विमानन कंपनियों के 120 पायलटों को शामिल किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि विस्तार के करीब 60 गैर उड़ान कर्मचारियों को भी एवर इंडिया में भेज दिया गया है। टाउन हॉल के दौरान दोनों कंपनियों के मुख्य कार्य अधिकारियों ने कहा कि विस्तारा के 7 हजार कर्मचारियों का मूल्यांकन पहले ही पूरा हो चुका है और उनका कार्यनिर्धारण भी पुरा होने वाला है। इन कर्मचारियों को महीने जून से चरणबद्ध तरीके से एयर इंडिया में एकीकत किया जाएगा। विस्तार के कुछ कर्मचारी तब तक वहां रहेंगे जब तक कंपनी का एयर ऑपरेटर सटिफिकेट (एओसी) नागर विमानन महानिदेशालब



 विस्तारा के करीब 7 हजार कर्मचारियों का एकीकरण अगले महीने से शुरू हो जाएगा

 विस्तारा के करीब 60 गैर उडान कर्मचारियों को भी एयर इंडिया में भेज दिया गया है

### एयर इंडिया में 17 हजार और विस्तारा में करीब 7 हजार कर्मचारी कार्यरत है

जाता। निजीकरण के बाद जनवरी, 2022 में टाटा समूह के एवर इंडिया का नियंत्रण अपने हाधों में लेने के बाद एयर इंडिया और विस्तारा के बीच कर्मचारियों का अनुपात 12:5 था। टाउन हॉल में विल्सन ने कहा कि यह अनुपात पिछले दो वर्षों से बरकरार है। फिलहाल, एयर इंडिया में करीब 17 हजार कर्मचारी हैं और विस्तारा में कर्मचारियों की संख्या लगभग 7 हजार है। इनमें 3,500 गैर उड़ान कर्मचारी और 2,500 उड़ान कर्मचारी हैं।

विल्सन ने यह भी कहा कि एवर इंडिया ने पिछले 24 महोनों में 70 विमान (17 चौडे आकार वाले और 53 संकरी आकार वाले) जोड़े हैं। उन्होंने कहा, 'यानी यह एवर इंडिया में एक विस्तारा को जोडने के बराबर है।' सुत्रों ने कहा कि विल्सन और कन्नन ने सीधे तौर पर उन का जिक्र नहीं किया जो विस्तारा और एयर इंडिया एक्सप्रेस पिछले कई हफ्तों से अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कर्मचारी विभिन्न मुद्ये पर असंतुष्ट हैं।

कंपनी लखनऊ, रायपुर और जयपुर में 1,000 कर्मचारी क्षमता वाले नए केंद्र स्थापित करने के शुरुआती चरण में है टिलीपरफॉरमेंस इंडिया के मुख्य कार्याधिकारी अनीश मक्केर ने बिजनेस स्टॅंडर्ड के साथ बातचीत में कहा, 'हम लखनऊ में केंद्र के आकलन के शुरुआती चरण में है और नोएडा में केंद्र पहले ही स्थापित किया जा चुका है जो अगले दो महीने में चालु हो जाएगा।" बीएस

OSBI धारतीय स्टेट बैंब स्थानीय प्रधान कार्यालय, मुंबई येट्रो सर्कल, मुंबई तीवरी मंत्रिल, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, जिनजी बिल्डिंग, बांदा कुली कॉम्सोकस, बांस ईस्ट, मुंबई- 400 051 वाणिज्यिक/कार्यालय परिसर की आवश्यकता थातीय स्टेट बैंक द्वारा मुंबई में साज्राओं के लिए पट्टा किराया आधार पर वाणिज्लिक /कार्यालय परिश के स्वामधिकारियो/पास और आर्ट्स सारकों से स्वाम आमंत्रित किए सते हैं। अधिक विवास तथा विकिश दरलानेल प्रायमलेख अगरे के लिए करणा दिरांभा 34/05/2024 में 26/05/2024 लग इसमीआई की मेमसहर https://abi.co.in/wab/abi-in-the-news/procurementnews देखें : इस फालीलप में प्रसाल जना करने की अंतिम तारीख 26/05/2024 को अध्याहण 3,50 कवे अधना उससे पहले है। इस संबंध में आगे की मुखवा/स्थ्लीकारण सिर्फ बैंक की ऊपर उल्लेखित सेकसाइट घट जादी किंद जाहरे। सहायक महाप्रवंशक (पीर्युवर्ड)

क्रमण प्रसास प्रसास लगा न करें।

made

0

एनएमडीसी लिमिटेड (भारत सरकार का उक्तम) 'क्रफिल भव्य', 10-2-21 1/ए, केमल क्रिफ, माल क्रि, क्रेल्सव-600 328

स्थानीय प्रयान सार्यालय

गुंबई मेट्री सामेल

Onnde.on.in; jverikatasa sizadty@rmdc.ts.in CH : LtatisTofalaGoisens74

खुली निविदा सूचना Piller ef. mangemen/ 1012-12/100001814/428. R. 14.08.2024 गएसटीनी इवेंट सं... एनएमढीसी/एवको/ सामाडी प्रबंधन/2/24-26 ईटी/107 (बॉटन सिप्रेक्सर्स 48 केएस से 60 केएस)

ल्लाग्वीची जिमिरेड, बीआइंडोएग, किस्टुल सॉन्फोक्स बीआईडोएन क्येली वॉन्फोर्क्स डॉन बीआईओएन बॉनिन्डाई जॉन्फोक्स के लिए आवश्यक प्रवट में निम्नलिवित व्यवस्थी के लिए नीये अच्या प्रनष्ठ नान्यताडल एजेंटी से ई- डायम मध्यम से जॉनजाइन निविधाई अल्पिट की वाडी है।

उपकर्म्स का किल्ला	त्वा (च.)	निविध दल्लामेज का अधर्मन एवं विश्वी अवधि	प्रसारम् जमा सन्ते हेतु जीतन विचास एवं समय	आणि राशि जना
धीटर सिम्रंगलर्स, बगता : 48 केत से 60 केएल, लंग निथिया ने जिनिवहियों के ज पुसार 6 वर्ष / 12, प्रन्दे, जो भी पहले हो, के लिए जनुरक्षण जरिस्टि और सहायप्र वपक्षता	12	ਸਿਰਿਸ਼ आपम 14.55.2024 ਦੀ 22.05.2024 ਕੀਇਸ ਸਿਰਿਸ਼ 31.05.2024 ਦੀ 21.05.2024	हिलोक 21.08.2024 सर्गोंड 2.30 मंद्रे	काले a,co,aoo/

विका आवेग्ट और अन्यत प्रकाशित नहीं होना संपाली निविधालन सुदि गरि कोई हो, जो प्रानकारी के लिए entransiste and a MSTC date als MMDC all lenge bash vil a

affiaire carried in factored interpet : www.comde.co.in it alorie father down dutitional मुख्य महाप्रबंधक (सामग्री

# ई–एससीवी में प्रवेश करेगा मुरुगप्पा समूह

# খাহন জঁকৰ चेन्नई, 13 मई

Date: 19-05-2024 Place: Martini

चेन्नई का मुरुगप्पा समूह छोटे इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहन (ई-एससीबी) कारोबार में प्रवेश करने की तैयारी में है। समूह की टीआई क्लीन मोबिलिटी (टीआईसीएमपीएल) की सहायक कंपनी टिवोल्ट इलेक्ट्रिक कोकल्स अगले कुछ महीने में अपना ई-एससीवी पेश करने की योजना बना रही है। समह टी आई क्लोन मोबिलिटी के जरिये इलेक्ट्रिक वाहनों में तकरीबन 3,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की प्रक्रिया में है।

कछ दिन पहले टीआई क्लीन मोबिलिटी ने निजी इक्विटी फर्म जीईएफ कैपिटल पार्टनर्स एलएलसी से 580 करोड़ रुपये जुटाने के लिए पक्के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। जीईएफ से प्रस्तावित निवेश पुरा होने के बाद जुटाई गई कुल राशि 2,530 करोड़ रुपये हो जाएगी। टचूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया (टीआईआई) के कार्यकारी वाइस चेयरमैन वेल्लायन

सब्बैया ने कहा 'भारत वैश्विक स्तर पर इलेक्टिक वाहनों को अपनाने के मामले में चीन के बाद सबसे आगे रहने वाला है। टीआईसीएमपीएल तीन हजार करोड़ रुपये की बडी प्रतिबद्धता के साथ इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में प्रभावशाली प्रगति कर रहा है। वर्तमान में हम चार प्लेटफॉर्म विकसित कर रहे हैं, जिनमें बाजार में पहले से मौजुद सफल एमएचसीबी ट्रक और ईवी तिपशिया शामिल हैं।' कंपनी ने सोमवार को बयान में कहा कि उम्मीद है कि शुरुआत होने के बाद यह वाहन अपनी अत्याधुनिक तकनीक, विशिष्ट डिजाइन, दमदार प्रदर्शन और टिकाऊ निमांण गुणवत्ता की वजह से भारत के मध्य और अंतिम छोर के मोबिलिटी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा।

वरुण बेवरिजेज का शुद्ध लाभ मार्च में

समाप्त तिमाही में पिछले साल की समान

अवधि के मुकाबले 25.2 फीसरी की

पिछले साल की समान अवधि में

कंपनी का शुद्ध लाभ 429.1 करोड़ रुपये

रता था। कंपनी जनवरी-दिसंबर की

इस बोच, कंपनी को शुद्ध बिक्रो इस

अवधि में 10.9 फीसदी की बढ़ोतरी के

साथ 4,317.3 करोड़ रुपये पर पहुंच

गई, जो पिछले साल को समान अवधि में

पहली तिमाही में कंपनी के वॉल्व्म में

अवधि को वित्त वर्ष मानती है।

3.893 करोड रुपये रही थी।

पहुंच गया।

कंपनी ने कहा कि व्यापक शोध और कठोर परीक्षण के परिणामस्वरूप ई-एससीवी का विकास होगा। फरवरी 2022 में ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया (टीआई) की सहायक कंपनी के रूप में स्थापित टीआईसीएमपीएल ने खुद को स्वच्छ मोबिलिटी के समाधानों के लिए समर्पित कर दिया है।



The Lation of Offer and the Abridged Lation of Offer, including Application Form and Flights Entitlement Lation to be modified in terms of lature Country Data and the same is modified to be read as "Tweaday, May 21, 2004". For Millelin Industries Likeling 4 For Billein Industries Limited

mata Dey regime Director (Dill: 06747942)

# यूपीआई लाइट वॉलेट पर ध्यान देगी पेटीएम

(डीजीसीए) को सौंप नहीं दिया

### अजिंक्य कावले पुणे, 13 मई

घेटीएम का परिचालन करने वाली कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस ऐसे उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए यूपीआई लाइट बॉलेट पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो कम पैसे का लेनदेन ज्यादा करते हैं।

आरबीआई द्वारा सहायक इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर शिकंजा कसे जाने के कुछ महीने बाद कंपनी ने बुपीआई लाइट फीचर पर ब्यान केंद्रित किया है। बैंकिंग नियामक ने पेमेंट बैंक को इस साल 15 मार्च के बाद अपने मोबाइल वॉलेट में नई पंजी स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर दिया था।

मौजुदा समय में, अपने पेटीएम वॉलेट में पैसा रखने वाले ग्राहक इसे अन्य चॉलेट या बैंक खाते में स्थानांतरित कर सकते हैं। आरबीआई के निर्देशों के मताबिक, एक बार पुराना बैलेंस खत्म हो जाने पर वे पेटीएम वॉलेट में पैसे नहीं डाल पाएंगे। यूपीआई लाइट बॉलेट पेटीएम के घरेलू वॉलेट परिचालन से अलग है।



यूपीआई लाइट फीचर इस्तेमाल करने वाले ग्राहक एक दिन में दो बार अपने वॉलेट में 2,000 रुपये तक जोड सकते हैं

नैशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की वेबसाइट के अनुसार वृपीआई लाइट ऐसे कम वैल्य वाले टांजेक्शन का प्रबंधन करता है जो 500 रुपये से नीचे हों। यह फीचर ग्राहकों को छोटे आकार के लेनदेन करने में उपयोगी है, जिनमें किराना, यात्रा का किराया जैसे भुगतान मुख्य रूप से शामिल

हैं। यूपीआई लाइट फीचर इस्तेमाल करने वाले ग्राहक एक दिन में दो बार अपने बॉलेट में 2,000 रुपये तक जोड सकते हैं और कुल दैनिक क्षमता 4,000 रूपये रख सकते हैं। वे कोई पिन डाले बगैर इस वॉलेट

यपीअई लाइट बॉलेट पेटीएम जैसी फिनटेक का आधार है। इसी तरह उपयोगकलांओं के लिए युपीआई लाइट सॉल्युशन पेशकश करने वाली अन्य फिलटेक कंपनियों में फोनपे, गुगल पे, नवी, ग्रो मुख्य रूप से शामिल हैं। इसे सितंबर 2022 में शुरू किया गया था। सभी बैंक ग्राहकों के लिए यूपीआई

लेनदेन का सकते हैं।

लाइट फीचर का समर्थन नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, पेटीएम पर, यूपीआई लाइट सिर्फ केनरा बैंक, सेंटल बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नैशनल बेंक, एसबीआई और पेक्सिस बेंक जैसे बैंकों द्वारा ही समर्थित है।

एनपीसीआई की वेबसाइट से पता चला है कि 34 बैंक यूपीआई लाइट फीचर से जुड़े हुए हैं।

पेटीएम के एक अधिकारी ने कात, 'हम इस वॉलेट को एक जरूरी पेमेंट टूल के तौर पर देख रहे हैं जो उपयोगकर्ताओं को अपना पैसा दैनिक इस्तेमाल के लिए रखने और यात्रा पर जाते बक्त त्वस्ति भूगतान बैलेंस का इस्तेमाल कर अन्य में सक्षम बनाता है।'

नोएडा हवाईअड्डे पर मिलेगा शुल्क-मुक्त आउटलट

दीपक पटेल नई दिल्ली, 13 मई

जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर में हवाई अड्डों पर शुल्क मुक्त क्षेत्रों का प्रबंधन करने वाली हैम्बर्ग स्थित हाइनमैन और हैदराबाद स्थित बोडब्ल्युसी फॉरवर्डर्स को नोएडा के भावी

अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खुदरा और शुल्क मुक्त आउटलेट संचालित करने का अनुबंध दिया गया है। यह हवाईअड्डा फिलहाल जेवर में निर्माणाधीन है और इसका परिचालन इस साल दिसंबर तक शुरू होने की उम्मीद है। विमानन क्षेत्र की सलाहकार फर्म कापा इंडिया के अनुमान के अनुसार यह

हवाईअड्डा साल 2025-26 में 94 लाख से 1.17 करोड़ तक यात्रियों का इंतजाम कर सकता है। हवाई अड़े ने ऐलान किया है कि हाइनेमान द्वारा संचालित इस अंतरराष्ट्रीय शुल्क-मुक्त आउटलेट में प्रीमियम शराब, तंबाकू, कन्फेक्शनरी, इत्र, सौंदर्य प्रसाधन और चॉकलेट का संग्रोजन होगा।

मुंबई संस्थारणः बिजनेस स्टेंडर्ड आहेट लिमिटेड के लिए प्रवासक परं मुद्रक संगेत खेओर द्वारा में. दन्द मीडिय प्राईदे लिमिटेड, 22, चीव एमआईडीसी, टोटीसी इंडरिंट्यन नरिय, विध् नगर, चैंव, नवी मुंबई-400708 में मुंद्री 400708 में मुंद्री स्थान से क्रा के प्रार्थ से का में, कहें, मुंबई-400708 से मुंद्री स्थान के प्राप्त के प्राप्त से का माँ, प्रती मुंबई-400013 से प्रवाशित संग्रह्म : केलास मेटियाल, आरएनआई में, MAHHIN/2008/24325 पाठक संग्रादक को lettershindigtersalan पर सोटा मेज सकते हैं । टेलीफोन - 033-2210/314/1022/1600 पैक्स - 033-2210/599

# मुंबई लक्षदीप 🕓

#### केनरा बैंक Canara Bank केनरा बैंक Canara Bank 🥈 सिंडिकेट Syndicate Lower Parel Branch : Unit No. 1, Ground Floor, Kamala Mills Compound, Times Tower, S. B. Road, Lower Parel (West), Mumbai - 400 013. E-mail : cb15538@canarabank.com Dadar (West) Branch : Mondesire Bldg., Ranade Cadell Road, Junction Shivaii Park Post. POSSESSION NOTICE [SECTION 13(4)] (For Immovable p POSSESSION NOTICE [SECTION 13(4)] (For Immovable pro Whereas: The undersigned being the Authorised Officer of the Canara Bank, Lowe Parel Branch, appointed under Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) (hereinafter referred to as "the Act") and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated or the Security interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated 02,02.2024 & published in 2 newspapers on 18.02.2024 calling upon the Borrower, Mr. Yogesh Kalyanrao Thakre and Mrs. Suman Kalyanrao Thakre to repay the amount mentioned in the notice, being Rs. 8,80,518.50 (Rupees Eight Lakhs Eighty Thousand Five Hundred Eighteen and Paisa Fifty only) as on 0.102.2024 plus interest due and other cost within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower/Guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby give to the borrower and the public in general, that the undersigned has taken **Symbolic Possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on him / her under section 13 (4) of the said Act, read with Rule 8 & 9 of the said Rule on this 07th day of May 2024. his 10th day of May 2024. The Borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Canara Bank Lower Parel Branch for an amount of **Rs. 8,80,518.50 (Rupees Eight**) Lakhs Eighty Thousand Five Hundred Eighteen and Paisa Fifty only). The borrower's attention is invited to the provisions of Section 13 (8) of the Act, in respect of ime available, to redeem the secured assets ecured assets. Description of the Immovable Property All That Part And Parcel of Property Bearing Details:- Residential Flat No. 1805, Admeasuring 320 Sq. Ft on The 18th Floor, A Wing, Building No. 2 Meridian Built Pro Pvt. Ltd. On The Final Plot No. 394/A & 394/C, Admeasuring 2506.20 Sq. Mtrs. Situated At Panchpakhadi. Taluka Thane With In The Area of Mira Bhavande Municipal Corporation Bounded as Follows: North – Final Plot No. 394C/1 & 394B South – Final Plot No. 394A/3 & 394C/1, East – Final Plot No. 394C/1 & 392, West – F P No. 394 D. Date : 07.05.2024 Authorised Officer Canara Bank Date : 10.05.2024 Place : Mumbai Place : Mumbai आर्ट हौसिंग फायनान्स (इंडिया) लिमिटेड ART (पुर्वीची आर्ट ॲफोर्डेबल हीसिंग फायनान्स (इंडिया) लिमिटेड) नोंद. कार्यालय: १०७, १ला मजला, वेस्ट स्काय टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, पितमपुरा, नवी दिल्ली–११००३४. शाखा कार्यालय: ४९, उद्योग विहार फेज ४, गुरूग्राम, हरियाणा–१२२०१५. सिक्युरीटायझेशन ॲन्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फिनान्शियल ॲसेटस् ॲन्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट २००२ च्या कलम १३(२) अन्वये सूचना. खालील स्वाक्षरीकर्ता हे **आर्ट हौसिंग फायनान्स (इंडिया) लिमिटेड,** सरफायसी कायदा २००२ च्या कलम २(१)(एम)(४) अन्वये, नोंद पत्ताः १०७, १ला मजला, बेस्ट स्काय टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, पितमपुरा, नवी दिल्ली–११००३४ (यापुढे प्रतिभूत धनको) यांचे प्राधिकृत अधिकारी आहेत, यांनी ०७.०५.२०२४ रोजी एनपीए म्हणून घोषित झालेल्या खालील कर्ज खाते क्रमांकामध्ये विद्यमान सूचना बजावली होती. कर्जदार व सह–कर्जदारांचा प्रतिभूत मालमत्तेचे कर्ज खाते कर्जदार व सह मागणी सचन कबाकी देय क्रमांक कर्जदारांची नावे तपशील १३(२) दिनांक रक्षम पत्ता एलएनकेएलएन पंकज विलास ोपीका नगर स्वामी सर्वानंद आश्रम समोर अशेले फ्लॅट क्र. १०१, १ला मजला. 09.04.2028 09.04.2028 ૨७१૮-फाकटकर व -अंबरनाथ, उल्हासनगर ४, ठाणे, महाराष्ट्र-डी-विंग, आश्रय आनंद, सर्व्हे रोजी १९०००४९७ अंकिता पंकज ४२१००४ व खोली क्र. ६, प्रभाकर कडू तारे चाळ, क्र.१४०/२ए, १४१/१बी, गाव 5. 20. 66. 848/ रुखमई नगर, मनेरे रोड, अशेले उल्हासनगर पूर्व-४, अंबरनाथ, तालुका- अंबरनाथ, (रुपये वीस लाख मे.पंकज जिन्स कष्णा मॅरिज हॉलजवळ ठाणे महाराष्ट्र– ४२१००४ ठाणे. महाराष्ट्रच्या मर्यादेत सत्याहत्तर हजार असलेली मालमत्ता आणि । फ्लॅट क्र. १०१, १ला मजला, डी विंग, आश्रय एकशे एकोणसा आनंद हिस्सा क १४०/२ए १४१/१बी चतुसिमा अधिकार फक्त) क्वाड पाडा, शिव मंदिरजवळ, अंबरनाथ (पूर्व), दस्तावेजप्रमाणे ठाणे, महाराष्ट्र - ४२१५०१ कर्जदारांना येथे कळविण्यात आले आहे की, सदर सूचनेच्या प्रकाशन तारखेपासून ६० दिवसात थकबाकी रक्कम जमा करावी अन्यथा येथे नमुद प्रतिभूत मालमत्तेत दिलेल्य संपदावर प्रतिभूत हिताची अमलबजावणी करण्याचा अधिकार वापरला जाईल. सदर सूचना ही **एएचएफएल**कडे उपलब्ध कोणत्याही पुर्वग्राहाशिवाय देण्यात येत आहे. सही/ प्राधिकृत अधिकार्र ठिकाण: कल्याण (महाराष्ट) आर्ट हौसिंग फायनान्स (इंडिया) लिमिटेड दिनांक: १४.०५.२०२४ **IB INFOTECH ENTERPRISES LIMITED** CIN: L30006MH1987PLC045529 Reg. Off.: 428, Kailash Plaza, Vallabh Baug Lane, Ghatkopar (E), Mumbai 400 075. Telephone No. (022) 6670 9800 Email ID: iielimited@yahoo.in STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER / YEAR ENDED 31<sup>st</sup> March 2024 Rs. in Lakhs(except per share data Year Ended Quarter Ended Particulars 31.03.2024 31.12.2023 31.03.2023 31.03.2024 31.03.2023

कर्जदारांचे लक्ष वेधण्यात येत आहे की, प्रतिभूत मालमत्ता सोडवून घेण्यासाठी उपलब्ध वेळेसंदर्भात कायद्याच्या कलम १३ चे उपकलम (८) ची तरतूद आहे.

Sr. No. 1 Total Income from operation (Net) 154.91 95.63 61.59 589.28 300.73 2 Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional 16.07 18.50 98.52 and/or Extraordinary items) 21.56 81.05 3 Net Profit/(Loss) for the period before Tax 21.56 16.07 18.50 98.52 81.05 (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after tax 15.58 13.82 73.17 73.7 12.57 (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 15.58 12.57 13.82 73.17 73.7 6 Paid-up Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/- each) 128.07 128.07 128.07 128.07 128.0 Other Equity Excluding Revaluation Reserves 46.78 (13.58) 8 Earnings Per Share (EPS) of Rs. 10/- each 1 22 Basic (for continuing and discontinued operations) 0.98 1 08 571 5 76 Diluted (for continuing and discontinued operations) 1.22 0.98 1.08 5.71 5.76

1) The above audited financial results for the guarter/year ended 31st March 2024 have been reviewed and recommended by the Audi Committee and approved by the Board of Directors of the company at their respective meeting held on 13th May 2024. The Statutory Auditors of the Company M/s Laxmi Tripti & Associates, Chartered Accountants, have audited the above financial results for the guarter and year ended 31st March 2024.

) The figures of the previous year / period have been regrouped / rearranged / recast to render the comparable with the figures of the current period.

B) The Company's financial results for the quarter ended 31st March 2024 are prepared in accordance with the Indian Accountin Standards (Ind-AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and notified by the Ministry of Corporate Affairs under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended). Ind-AS compliant comparative figures of the preceding quarter ended 31st December 2023 have not been audited but reviewed by Statutory Auditors, while the corresponding quarter ended 31st March 2023 and year ended 31st March 2023 have been audited by the Statutory Auditors of the Company.

🥂 सिंडिकेट Syndicate

Dadar (West), Mumbai - 400 028, Email : cb0107@canarabank.com

Whereas: The undersigned being the Authorised Officer of the Canara Bank, Dadar Branch, appointed under Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) (hereinafter referred to as the Act") and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated 01.02.2024 & published in 2 newspapers on 18.02.2024 calling upon the Borrower, Ms. Vaishnavi Vijay Kargutkar & Guarantor Mr. Sushil Kumar Rajbahadur to repay the amount mentioned in the notice, being Rs. 26,94,026/- (Rupees Twenty Six Lakhs Ninety Four Thousand Twenty Six only) as on 31.01.2024 plus interest due and other cost within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower/Guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to The borrower and the public in general, that the undersigned has taken **Possession Symbolic** of the property described herein below in exercise of powers conferred on him / her under section 13 (4) of the said Act, read with Rule 8 & 9 of the said Rule on

The Borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Canara Bank, Dadar Branch for an amount of **Rs. 26,94,026/- (Rupees Twenty Six** Lakhs Ninety Four Thousand Twenty Six only) The borrower's attention is invited to the provisions of Section 13 (8) of the Act, in respect of time available, to redeem the

Description of the Immovable Property All That Part And Parcel of Property Bearing Details:- Residential Flat Bearing Flat No. 001, Admeasuring 625 Sq. Ft. (built Up) Area, On Ground Floor, In The A Wing, of Building Known As "Sai-Tej" of Society Known as "Sai Tej Co-operative Housing Society Being Constructed On All That Piece and Parcel of Land Bearing Survey No / GutNo. 65. Hissa No. 1/1 K, Plot No 4 At Village Valivali, TALUKA – AMBERNATH, District Thane, Bounded As Follows: **North** – By Property of S. No. 70, **South** – By Property of Plot No. 5, East-By Road & Property of Plot No. 3, West-By Property of S. No. 70.

Authorised Officer Canara Bank

## PUBLIC NOTICE

IT IS HEREBY INTIMATED THAT Flat No.303, 3<sup>rd</sup> Floor, B-Wing, Antartica o \_odha Aqua CHS Ltd. situated a Mahajanwadi, Mira Road (E), Thane-401107 with 10 fully paid-up Shares of Rs.50/- each bearing Distinctive No.4571 to 4580, Share Certificate No.458 ("said Premises") stood jointly in the names of Vithal Laxman Gandhi (since deceased) 8 Priti Vithal Gandhi That Vithal Laxma Gandhi died intestate on 28-11-21 (his wife Minal Vithal Gandhi having predeceased on 15-6-19), leaving behind my clients i.e. Milind Vithal Gandhi & Priti Vithal Gandhi as his surviving legal heirs and thus having 25% & 75%, respective, shares in said premises as per law. That Priti Vithal Gandhi has agreed to transfer her 25% undivided share in said premises in favour of her brother i.e. Milind Vithal Gandhi by vay of Registered Release Deed and Milind Vithal Gandhi will be applying for membership to society for transfer of 50% rights, title and interest of said premises. Any person having any objection for gran of membership or having any claim, right title or interest or any part thereof either b vay of inheritance, heirship/mortgage lease, sale or lien, charge, trust, injunction possession, exchange, attachment o otherwise are requested to write along with supporting document to undersigned at 3 House No. 229, Vintage Building, Opp. Madina Hotel, Kurla (West), Mumbai 400070, within 15 days from date o publication, failing which all such claim and/or objection, if any will be considered as waived and abandoned. Place : Mumbai sd/ Date: 14.05.2024 [Shailesh Pa]] Advocate, Highcourt Bombay

by this Notice, Public in general is informed hat my clients the Windsor Grano escidences Condominium, Near Vicino Ma Dff. Link Road, Oshiwara, Mumbai-400 10 ranted permission to M/s. Windsor Real winto Ltd. and their corresponditions (MA granted permission to M/s. Windsor Realty Private Ltd. and their representatives (M/s. WRPL) vide the resolution dated **19th November, 2022** passed in the AGM for issuing NOC on behalf of the Condominium for sale of the flats held by them in the Windsor Grande Residences Condominium. Now the Windsor Grande Residences Condominium have decided to cancel the said permission granted to M/s. Windsor Realty Private Ltd. and their representatives (M/s. WRPL) vide resolution in the Special General Meeting held on **5th May, 2024** in the light of various ongoing claims that have been placed various ongoing claims that have been place on M/s. WRPL and pending their resolution In future M/s. Windsor Realty Private Ltd and their representatives (M/s. WRPL) wil have no right to issue NOC for sale of flat have no right to issue NOC for sale of flats held by them and if they will issue such NOC, the same will be treated illegal and unauthorized and the same will not be binding on my clients the Windsor Grande Residences Condomium

PUBLIC NOTICE

K. R. TIWARI (ADVOCATE) Shop No. 14, A - 5, Sector - 7, Shantinagar, Mira Road, Dist. Thane - 401107.

सार्वजनिक सूचना

सार्वजनिक सूचना दिली जाते की अब्दल हमान कुरेशी दिवंगत मोहम्मद आयुब कुरेशी यांची वॉरस, फ्लॅट क्रमांक १५०५, १५व्या मजल्यावरची ही नवीन फ्लॅट जुन्या प्लॅट क्र.ए/३०४च्या ऐवजी युनिटी कॉम्प्लेक्स नहकारी गृहनिर्माण संस्था, यारी रोड, वर्सोवा अंधेरी (प.) मुंबई-४०० ०६१, सर्व्हे क्र. १४ हिसा क्रमांक १, गाव वर्सोवा, तालुका अंधेरी सीटीएस क्र.१२१७, ५८० स्केअर फूट, रेर कार्पेट हे (सदर परिसर) आमच्या इच्छुक खरेटीटार गाइकांना सटर परिसर विकण्यार सहमती दिली आहे, तथापि, विक्रेत्याने दिनांक ०५-०४-२०२३ च्या कायदेशीर सचनेद्रारे आमचे अशील अब्दुल रहमान कुरेशी विक्रेत आणि श्री जिशान जंगबहादूर खान आणि श्रीमती फरहाना परवीन जिशाने खान पूर्वीच्या करेदीदार यांच्यातील १७.०३.२०२२ रोजीचा एमओयू रद्द केला गेला आहे.

सर्व व्यक्ती आणि व्यक्ती ज्यांचा चजण, विक्री वाटा, वाहतूक, वाहतूक, गृहीतक, गहाण वरील उल्लेख केलेल्या जागेच्या किंवा त्याच कोणताही भाग आणि/किंवा इतर कोणत्याही शीर्षक, कराराद्वारे कोणताही दावा, हक्क मालकी आणि हीत आहे. भार, कौटुंबिक व्यवस्था, वारसा, मुखत्यारपत्र, कोणत्याई ट्रस्ट अंतर्गत फायदेशीर हक्क/व्याज प्रिस्क्रिप्शन किंवा प्री-एम्प्शनचा अधिका किंवा कोणत्याही करार किंवा इतर प्रवृत्ती अंतर्गत किंवा कोणत्याही न्यायालय किंवा गाधिकरणाने पारित केलेल्या डिक्री, आदेश किंवा निवाडा किंवा अन्यथा. त्यानुसार. प्रकृती काहीही असो, खाली नमूद केलेल्या त्यांच्य चेंबरमधील खाली स्वाक्षरी करणाऱ्यांन राव्याच्या संबंधित कागदपत्रांच्या प्रतींसह व लेखी कळवावे अशी विनंती आहे सार्वजनिक सूचनेच्या तारखेपासून १ दिवसांच्या आते असे करण्यात अयशर्स्व

म्राल्यास. अशा व्यक्तीचा दावा माफ केल जाईल आणि/किंवा सोडला जाईल आणि त्यानंतर त्याचा विचार केला जाणार नाही. ठेकाण – मुंबई सही/ दिनांक – १ँ४/०५/२०२४

गुल ए मदनानी उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता

२३२, क्रिस्टल शॉपर्स पॅराडाईज, प्लॉट क्र

४८९, २४ आणि ३३ व्या जंक्ट, वांद्रे (प), मंबई – ४०० ०५०.

### जाहीर सूचना

सर्वसामान्य जनतेस या नोटीसीव्दारे कळविण्यात येते की, गांव- मौजे - निळेमोरे ता. वसई, जि. पालघर येथील सोनीको. ऑप. हाउ. सोसा. ली. मधील शॉप नं. १०, तळमजला, ही मिळकत आमचे अशिल श्री. प्रकाश दयाराम दमानिया यांचे मालकीची आहे.

सदर शॉपचा पहिला करारनामा मे. विवेक बिल्डर्स आणि आशा एंटरप्रायजेसमध्ये दि. १५/४/१९८९ रोजी करारनामा झाला होता. सदर करारनामा घर शिंप्टींग करतान कुठे गहाळ झालेले आहे ते समजले नाही. आम्हीसदर करारनामाचा शोध घेतला असता ते कुठेही मिळालेले नाही. तसेच आम्ही सदर करारनामाचा कुठेही दुरुपयोग किंवा कोणत्याही बँकेत किंवा व्यक्तिश: गहाण ठेवून कर्ज घेतलेले नाही. आता आमचे अशिल श्री. प्रकाश दयाराम दमानिया सदर शॉप विकत आहे व खरेदीकरिता आपल्या बॅकेत सदर शॉप बँकेत गहाण ठेवून कर्ज घेणार आहेत.

तरी सदर करारानामाबाबत इतर कोणाची काही हरकत असल्यास त्यांनी लेखी पुराव्यासह आम्हांस ही नोटीस प्रसिध्द झाल्यापासून **१४ दिवसांच्या** आत आम्हांस या पत्त्यावर लेखी पुराव्यासह कळवावा, अन्यथा आमचे अशिलाचे बँक पुढील आवश्यक कार्यवाही करून सदर शॉपवर कर्ज देणार आहेत.

हीरो हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड HeroHousing नोंदणीकृत क नांदणीकृत कार्यालय: ०२, कम्युनिटी सेन्टर, बसंत लोक, वसंत न्यु दिल्ली-११००५७. दूर::०११-४९२६७०००, टोल फ्री क्रमांक: १८०० २१२ ८८००, tomer.care .com, वेबसाईट:www.herohousing सीआयएन:युद्द५१९२डीएल२०१६पीएलसी३०१४८ संपर्क पत्ता: कार्यालय क्र.बी-३०५, बीएसईएल टेक पार्क, प्लॉट क्र.३९/५ व ३९/५ए, सेक्टर ३०ए, वाशी रेल्वे स्टेशन समोर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र-४००७०३. शुद्धिपत्रक दिनांक १०.०५.२०२४ रोजी या वृत्तपत्रात प्रकाशित ताबा सूचना संदर्भात जे कर्जदार धिरज फर्नांडिस (कर्ज खाते क्र.HHFMUMHOU19000001846) यामध्ये कर्जदार/कायदेशीर वारसदार/कायदेशीर प्रतिनिधींचे नाव चुकीने सुरेखा संजय दाभाडे, संजय संभाजी दाभाडे असे प्रसिद्ध झाले आहेत तरी ते नाव कृपया धिरज फर्नांडिस, मेबल फर्नांडिस असे वाचावे. अन्य इतर सर्व मजकुर अपरिवर्तीत आहे. सही/- प्राधिकृत अधिकारी दिनांक: १४.०५.२०२४

ठिकाण: ठाणे

हीरो हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडकरिता

## **PUBLIC NOTICE**

IOTICE is hereby given to the public at large that my client Ms. Shalaka Ramesh Sawant, residing at Flat No.201, 'A' Wing on 2<sup>nd</sup> Floor Mathura Vihar Co - Operative Housing Society Ltd., Overipada, Dahisar (East), Mumbai - 400068, wishes to declare that vide an Agreement For Sale dated 17th April, 2001 Registered under S.No. PBDR2-2097-2001, her father Mr. Ramesh Shankar Sawant purchased Flat No.201, 'A' Wing on  $2^{nd}$  Floor Mathura Vihar Co – Operative Housing Society Ltd., Overipada, Dahisar (East), Mumbai - 400068 from Builder-Developers M/s Nicholas Creations. The Flat purchasers of the building "Mathura Vihar" promoted and got registered a Co-operative Housing Society in the name of "Mathura Vihar Co – Operative Housing Society Ltd." and thus the abovenamed Mr. Ramesh Shankar Sawant i.e. the father of my client became member of Mathura Co-operative Housing Society Ltd. and as such member, he held share capital of the said society under Share Certificate No. 4 bearing distinctive nos. 16 to 20 (both inclusive).

My client further wishes to declare that her mother Mrs. Nandinee Ramesh Sawant expired or  $15^{\mbox{\tiny thm}}$  September, 2012 leaving behind her husband i.e. my client's father, son Bhushan Ramesh Sawant and my client as her only heirs and legal representatives according to Hindu Succession Act, by which the said deceased was governed

My client further wishes to declare that her father the abovenamed Mr. Ramesh Shankar Sawan expired on 10<sup>th</sup> July, 2020 leaving behind him his son Bhushan Ramesh Sawant and daughter i.e. my client according to Hindu Succession Act, by which the said deceased was governed and after the death of my client's father, my client and her brother applied for joint membership of the Society and the Managing Committee of abovenamed Mathura Vihar Co-operative Housing Society Ltd. transferred the shares held in the name of deceased member into the names of his legal heirs i.e. Bhushan Ramesh Sawant and my client in equal share and entered their names in Share Certificate as legal heirs of deceased member on 16/01/2021.

My client wishes to declare that her brother the abovenamed Mr. Bhushan Ramesh Sawant died Bachelor on 3rd March, 2022 leaving behind him his sister i.e. my client as his only surviving heir according to Hindu Succession Act, by which the said deceased was governed and after the death of her abovenamed brother, my client applied for membership of the said society and the Managing Committee of the abovenamed Mathura C.H.S. Ltd. transferred the aforementioned flat and shares to her name and entered her name in Share Certificate as only surviving legal hei on 02/10/2023.

My client further wishes to declare that she intends to sell the aforesaid said flat viz. Flat No. 201 to Mr.Rajesh Vinodbhai Parmar and Mrs.Vasanti Vinodbhai Parmar.

The public at large are hereby informed that if, anybody have found or have any claim, right, and interest of any nature by way of sale, gift, lease, mortgage, charge, lien, trust or otherwise in respect of the aforesaid flat or any part thereof through deceased member Mr. Ramesh Shankar Sawant, contact me to my below mentioned address with necessary documentary proof thereof within 15 days from the date of this publication.

Dated this 14<sup>th</sup> day of May, 2024.

Mrs.Megha Milind Raorane, Advocate, High Court 01/601, Om Gokul Garden CHSL Thakur Complex, Kandivali (East), Mumbai- 400 101. Mob:- 8169927194/ Email : raoranemegh@gmail.com

#### IN THE PUBLIC TRUSTS REGISTRATION OFFICE GREATER MUMBAI REGION, MUMBAI

Dharmadaya Ayukta Bhavan, 1st floor, Sasmira Building, Sasmira Road, Worli Mumbai- 400 030

PUBLIC NOTICE OF INQUIRY Change Report No. DYCC/ 1501 of 2022 Filed by Mr. Amit M. Shah In the matter of Girdharlal Nihalchand Trust

PTR No. A-631 (Mumbai)

All concerned having interest

WHEREAS THE trustee of the above trust has filed the above Change Report under section 22 of the Maharashtra Public Trusts Act, 1950 for bringing the correct description of the property on the record of the above named trust and an inquiry is to be made by the Deputy Charity Commissioner, Greater Mumbai Region, Mumbai. . Whether this property is the property of the trust and could be registered

#### in the trust name DESCRIPTION OF THE PROPERTY

Be pleased to correct the following description of the property appearing in P.T. Register Schedule I

From 283 1/3 to 639 yards i.e. 534.28 sq. meters in the property known as ALL THAT piece or parcel of land of Pension and Tax Tenure (cess whereo ALL THAT piece or parcel of land of Pension and Tax Tenure (cess whereof has been redeemed) together with the messuage tenement and dwelling house standing thereon situate-lying and being in Anant Rishi's Oart or Wadi near the Grand-Portuguese Church Lane Bhuleshwar in the City and Registration sub-district of Bombay in the Books of Collector Land Revenue under Old No. 639 New No. 2970 Old Survey No. 272 New Survey No. 406 Cadastral Survey No. 1750 of Bhuleshwar Division in those of the Assessor and Collector of Municipal Rates and Taxes under C ward Nos. 4504, 4504 Street Nos. 4 and bounded on the East by the property described in Schedule B hereto and beyond that by the property of Chaturbhuj Morarji on the North by a sweeters gully on the South by Anant Rishis's Oart. AND ALL THAT piece or parcel of land or ground situate in Anant Rishis's Oart near the Grand-Portuguese Church Lane Bhuleshwar in the land of Bombay and in Registration sub-district of Bombay and in the South State Bhuleshwar Anant Rishis's Oart. AND ALL THAT piece or parcel of land or ground situate in the land of Bombay and in Registration sub-district of Bombay and the South State Sharet Nos. 4 Seesed by Rishis's Oart near the Grand-Portuguese Church Lane Bhuleshwar in the Island of Bombay and in Registration sub-district of Bombay Assessed by the Municipal Assessor under Ward Nos. 4502 and 4503 and street Nos. 3-1 respectively and registered in the books of the Collector of Land Revenue under Old Nos. 639 and New No. 2968 under Old Survey No. 6270 & 271 and New Survey No. 405, 407 respectively containing by admeasurements 16 square yards out of 223 square yards or thereabout and bearing Cadastral Survey No. 1750 of Bhuleshwar Division and Bounded as follows that is to say on or towards the South by the public passage called Anant Rishis Cart On or towards the West by the property of the said Atmaram Balkrishna kirtikar On or towards the North by Sweepers gully and On or towards the East by the property which formerly belonged to the Late Fakir Balkrishna and now belongs to the said Vishvanath and Poost Parbhuram Balkrishna and now belongs to the said Vishvanath and Popat Parbhuram vaidya and which said premises were formerly and are now in the tion of the tenants of the Vendors.

1) The figures for the quarter ended 31st March 2024 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year ended 31st March 2024 and the unaudited published year to date figures up to the quarter ended 31st December 2023.

) The above is an extract of the detailed format of quarterly and yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of Securities and Exchange board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the guarterly and yearly Financial Results are available on the stock exchange website - www.bseindia.com and or Company's Website - www.ibinfotech.net.in By order of the Board For IB Infotech Enterprise Limited

Place · Mumbai Date : 13 May 2024



सीआयएन : L65910MH1993PLC302405 **नोंदणीकृत कार्यालय :** ३ रा मजला, ए -५१४. टीटीसी इंडस्टियल क्षेत्र. एमआयडीसी, महापे, नवी मंबर्ड ४०० ७०१ ई-मेल : contactus@qgofinance.com/संकेतस्थळ : www.qgofinance.com/दूरध्वनी क्रमांक : +९१-२२-४९७६ २७९५

#### सेबी (एलओडीआर) अधिनियम २०१५ चा अधिनियम ४७(१) च्या अनसार

३१ मार्च २०२४ रोजी संपलेली तिमाही आणि सहामाहीसाठी लेखापरीक्षित स्वतंत्र वित्तीय निकालांचा सारांश

बीएसई कोड ५३८६४६ रक्कम रु. लाखांत					रु. लाखांत	
			संपलेली तिमाही	संपलेले वर्ष	संपलेले वर्ष	
अ. क्र.	तपशील	३१ मार्च, २०२४ लेखापरीक्षित	३१ डिसेंबर, २०२३ अलेखापारीक्षित	३१ मार्च, २०२३ लेखापरीक्षित	३१ मार्च, २०२४ लेखापरीक्षित	३१ मार्च, २०२३ लेखापरीक्षित
۶	कार्यान्वायानातून उत्पन्न	३७२.८३	३५६.९६	३०६.८१	१४०४.५	११५६.६९
२	निव्चळ नफा/(तोटा) कालावधीकरिता (करपूर्व, अपवादात्मक बार्बीच्या पूर्व)	९४.३२	૬૧.૭५	ધહ.૦ધ	३३६.५८	२३७.१४
ş	निव्चळ नफा/(तोटा) कालावधीसाठी करपूर्व (अपवादात्मक बार्बीच्या पश्चात)	९४.३२	૬૧.૭५	ધહ.૦ધ	३३६.५८	२३७.१४
¥	निव्वळ नफा/(तोटा) कालावधीसाठी करपश्चात (अपवादात्मक बार्बीच्या पश्चात)	૮७.५	६८.७१	४३.८२	२६५.३९	१७५.९९
ų	एकूण सर्वकष उतपन्न कालावधीसाठी (ज्यात नफा/(तोटा) कालावधीकरिता (कर पश्चात) आणि अन्य सर्वकष उत्पन्न (कर पश्चात) यांचा समावेश आहे	૮७.५	६८.७१	४३.८२	२६५.३९	૧૭५.९९
६	इक्विटी समभाग भांडवल	६९५.२८	६९५.२८	६९५.२८	६९५.२८	६९५.२८
G	रिझर्व्ह (रिव्हॅल्युएशन रिझर्व्ह वगळून) जे मागील वर्षीच्या लेखापरीक्षित ताळेबंदात दर्शविण्यात आले आहे	८४८.८१		६१४.९९	८४८.८१	६१४.९९
د	प्रति समभाग अर्जन (रु. १०/- प्रत्येकी) (खंडित आणि अखंडित कार्यान्वयनासाठी) -	-	-	-	-	-
	बेसिक :	१.२६	0.99	०.६३	३.८२	ર.५३
	डायल्युटेड :	१.२६	0.99	०.६३	३.८२	ર.५३

#### **सूचना**ः

तिनांक: १३.०५.२०२३

थळ : नवी मुंबई

- हे वित्तीय पत्रक कंपनी कायदा २०१३ चे कलम १३३ मध्ये विहित करण्यात आलेल्या कंपनीज इंडिअन अर्कौटिंग स्टॅंडर्झ्स (इंड एएस) तसेच त्यासह वाचा कंपनीज (अकौंटिंग स्टॅंडर्झ्स ) नियम २०१५ चा नियम ३ आणि कंपनीज (आवएएस) सुधारणा नियम २०१६ आणि या संदर्भात विहित करण्या आलेल्या तसेच प्रचलित पद्धतींच्या अनुसार तयार करण्यात आला आहे.
- वरील प्रमाणे नमूद करण्यात आलेल्या निकालांचा आढावा अंकेक्षण समितीने घेतला आहे आणि त्याला कंपनीच्या संचालक मंडळाने त्यांच्या दिनांक १३/०५/२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत आढावा सेबी (एलओडीआर) अधिनियम चो नियम ३३ च्या अनुसार घेतला आहे. सदरील निकालांचा विस्तृत आराखडा कंपनीचे संकेतस्थळ www.qgofinance.com येथे तसेच स्टॉक एक्स्चेंज यांचे संकेतस्थळ www.bseindia.com येथ उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
- कंपनी ही फायनान्स आणि गंतवणक क्षेत्रात कार्यरत आहे आणि इंड ए एस -१०८ च्या अनसार एकल क्षेत्रात कार्यरत आहे. कंपनीज (अर्कौटिंग स्टॅंडर्ड्स) नियम २०१५ मध्ये अधिसूचित केल्यानुसा
- आढावा घेण्यात आलेल्या तिमाहीत कंपनीने ३०० नॉन कन्व्हर्टिबल डिबेंचर, इश्यू प्राईस रु. १,००,००० प्रति डिबेंचर प्रमाणे जारी केले आहेत आढावा कालीन तिमाहीत वापरण्यात आलेली एकूण रक्कम रु. ३,००,००,००० इतकी आहे.
- एकूण कर्ज रक्कम दिनांक ३१/०३/२०२४ पर्यंत रु ९१,५९,९१,७७२/- इतकी आहे. एकूण येणे नॉन कन्व्हर्टिबल डिबेंचर दिनांक ३१/०३/२०२४ रोजी रु. ७८,४०,००,०००/ – इतके आहेत.
- मागील वर्षीचे आकडे चालू वर्षाच्या आकड्यांशी अधिमान्य करण्यासाठी पुनः सामूहित करण्यात आले आहेत

### क्यूगो फायनान्स लिमिटेड यांच्या करित सही/-रचना सिंर्ग व्यवस्थापकीय संचालव डीआयएन : ००१६६५००

ॲड. अशोक तिवारी पत्ता - २१०, २रा मजला, श्रीपाल प्लाझा नालासोपारा स्टेशनसमोर, नालासोपारा – पश्चिम, ता. वसई, जि. पालघर – ४०१ २०३

### **PUBLIC NOTICE**

Notice hereby given to the Public at large that my clients Mr.Zulfikar Jigar Ali Rupani & Mr. AshishJigar Ali Rupani, are the Joint owner of Commercia Unit No. A/001 to A/006, in Chawre Castle CHS.Ltd, Nilemore, Nallasopara (West), Dist. - Palghar - 401203, and he haslost / misplaced his below nention Society Share Certificates, as detailed below, issued by the said M . Chawre Castle CHS Ltd.

Sr. No.	Commercial Unit No.	Share Certificate No.
1)	A/001	01
2)	A/002	02
3)	A/003	03
4)	A/004	04
5)	A/005	05
6)	A/006	06

Any person/s having any right title interest or any claim over the said above share certificates of thesociety by any nature of claim/s, etc. may inform the under signed within 14 Days of this Public Noticein written form with supporting documents. Failure to which, society will issue the duplicate share certificates, for above units, on the name of my client.

#### ASHOK KUMAR TIWARI

Sd/

Advocate High Court Off. 210, Shripalplaza, Opp. Railway Station, Nalasopara(West), Dist - Palghar - 401 203

This is a Corrigendum to letter of offer for information purposes only and does not constitute an invitation or an offer to acquire, purchase or subscribe to securities.)



Sd

Directo

Jasmin Pareki

<u>टेडर नोटिस</u>

रिहरेश्वर मंदिर,चक्रधर नगर, नालासोपारा (पश्चिग

गलघर - 401203. स्थित "मुक्ती दर्शन को-

ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड." य

सदर इमारतीच्या पनर्विकासासाठी नामांकित

विकासकांकडून सिलबंद निविदा मागविण्यात येत

निविदा कागदपत्रे सोसायटी कार्यालयात उपलब्ध

आहेत. तरी. इच्छक विकासकाने दिनांव १६/०५/२०२४ ते २१/०५/२०२४ या कालावधील

मकाली 10 ते संध्याकाली 5 वाजेपर्यंत **"Mukti** 

Darshan CHS Ltd." च्या नावे रुपये 2000/

(नॉन रिफंडेबल) डिमांड डाफ्ट / पे ऑर्डरच्य

संपर्क

श्री. राजेश सावंत -

(Hon. Secretary ) 8779928202. श्री. कष्णा पै - (Hon. Treasurer)902921964

सूचना :- निविदेबाबत काही विचारणा /माहिर्त

हवी असल्यास टेजरर, सेक्रेटरी यांची वेळ

मागुन, त्यांच्याशी बोलणं करता येईल.

रूपात जमा करून, निविदा घेऊन जाणे

आहेत

Our Company was originally incorporated as Billwin Waterproof Private Limited on February 05, 2014 at Mumbai, Maharashtra as a private limited company under the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai. Pursuant to a special resolution passed by the shareholders of the Company at the Extra Ordinary General Meeting held on June 05, 2019, our Company's name was changed to Billwin Industries Private Limited. A fresh certificate of incorporation consequent upon change of name was issued on July 09, 2019 by the Registrar of Companies, Mumbai. Subsequently, our Company was converted into Public Limited Company pursuant to Shareholders resolution passed at the Extraordinary General Meeting four Company held on January 06, 2020 and the name of our Company was changed to "Billwin Industries Limited" and a Fresh Certificate of Incorporation consequent upon conversion of Company to Public Limited dated January 28, 2020 was issued by Registrar of Companies, Mumbai. For further Details of Incorporation and Change in Registered Office of our Company, please refer to section titled "General Information" beginning on page 38 of this Letter of Offer.

Registered Office: 79, Vishal Industrial Estate Village Road, Bhandup West Mumbai City - 400078, Maharashtra, India. Contact Person: Ms. Sapna Bader, Company Secretary and Compliance Officer Tel: +91-22 - 2566 8112; Phone No. 9588951915, E-mail: info@billwinidustries.com; Website: www.billwinindustries.com PROMOTERS OF OUR COMPANY: MS. SMITA SUBRATA DEY AND MR. SUBRATA DEY Tel: +91-22 - 2566 8112 v.billwinindustries.com

### CORRIGENDUM TO THE LETTER OF OFFER DATED APRIL 22, 2024 (THE "LETTER OF OFFER" / "LOF") AND THE ABRIDGED LETTER OF OFFER (THE "ALOF"): NOTICE TO INVESTORS (THE "CORRIGENDUM")

RIGHT ISSUE OF UPTO 2130724 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF Rs.10.00 EACH ("EQUITY SHARES" OR "RIGHTS EQUITY SHARES) OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF Rs. 34/- PER RIGHTS EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF Rs. 24/- PER RIGHTS EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO Rs.724.45 LAKH ("THE ISSUE") ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO Rs.724.45 LAKH ("THE ISSUE") ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1:1 (1) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY (1) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ON THE RECORD DATE, THAT IS 29TH APRIL, 2024 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 89 OF THIS LETTER OF OFFER

This is with reference to the Letter of Offer ("LOF") filed by the Company with the BSE (the "Stock Exchange") and the Securities and Exchange Board of India ("SEB") (for information purpose only). Applicants I Investors may note the following modifications to the disclosures in the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, Application Form, Rights Entitlement Letter and the same may be taken as updated and included in the Letter of Offer, the Abridged Letter of Application Form, Rights Entitlement Letter:

Undate in relation to Issue Closing Date

At the time of filing the Letter of Offer, the Issue Closing Date was decided to be Monday, May 20, 2024. However, as per the powers stated in the Letter of Offer the Board of directors to extend the said date of closing of rights issue offer period as may be determined by them from time to time, in their meeting held or Thursday, May 09, 2024 have decided to extend the issue period by one (1) day for the benefit of investors and hence, the issue closing date shall be read a

The Letter of Offer and the Abridged Letter of Offer, including Application Form and Rights Entitlement Letter to be modified in terms of Issue Closing Date and the same is modified to be read as "Tuesday, May 21, 2024". For Billwin Industries Limited

Date: 10-05-2024 Place: Mumbai	Sd/- Subrata Dey Managing Director (DIN: 06747042)
-----------------------------------	--

This is to call upon you to submit your objections, if any in the matter before the Deputy Charity Commissioner, Greater Mumbai Region, Mumbai at the above address within 30 days from the publication of this notice.

Given under my hand and seal of the Charity Commissioner, Maharashtra State, Mumbai,

This 10th day of the month May, 2024



DHANLAXMI COTEX LIMITED						
CIN: 151100MH1987PI C042280						
Regd. Off: 285, 2nd Floor, Jhawar House, Princess Street, Mumbai - 400002						
PHONE : 022-4976 4268   Website : www.dcl.net.in						
E-mail : dcotex1987@gmail.com / accounts@dcl.net.in						
Extract of Annual Standalone Audited Financial Results for the quarter and						
BSE Code: 512485 year ended 31st March, 2024 (Rs. In Lakhs except EPS)						
	Quarter		Corrosponding			
Particulars	Ended	date ended		year		
	31st March 2024	31st March 2024		ended on 31st March		
	2024	2024	2023	2023		
	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)		
Total income from operations & other revenue	383.84	2871.82	505.05	2534.26		
Net Profit / (Loss)						
(before tax and/or extraordinary items)	(40.11)	344.24	(43.72)	35.60		
Net Profit / (Loss) for the period before tax						
(after Extraordinary items)	(40.11)	344.24	(43.72)	35.60		
Net Profit/ (Loss) after tax	()		()			
(after extraordinary items)	(40.16)	288.54	(45.78)	23.69		
Total Comprehensive income for the period	(=0.10)	200.04	(40.70)	20.00		
[comprising profit/(loss) for the period						
(after tax) and other comprehensive income						
(after tax) ]	(112.95)		(304.70)			
Equity Share Capital	487.14	487.14	487.14	487.14		
Reserves (excluding Revaluation Reserve						
as shown in the Balance Sheet of previous						
year)	0	6677.94	0	4450.51		
Earnings Per Share (of 10/- each)						
(for continuing and discontinued operations)						
Basic :	(0.82)	5.92	(0.94)	0.49		
Diluted:	(0.82)	5.92	(0.94)	0.49		
Note:	(56)		(			

The above Standalone Audited financial results for the quarter and year ended 31.03.2024 have been reviewed by Auditors, Audit Committee in their meeting held on 13th May, 2024 and have been approved by the Board of Directors in their meeting held on 13th May, 2024. The above is an extract of the detailed format of year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and year ended Financial Results are available on the Stock Exchange website, (www.bseindia.com) and on the

oompany s website (www.uci.net.in).	For Dhanlaxmi Cotex Limited Sd/-
	Mahesh S. Jhawar
Place : Mumbai.	(Whole Time Director)
Date: 14.05.2024	DIN: 00002908

Notes